

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी  
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi  
संख्या: पीआरओ 167/2021 दिनांक: फरवरी, 28/2021

\*प्रेस नोट\*

आज दिनांक 28. 02.2021 को थाना चौबेपुर के व0उ0नि0 श्री शेष कुमार शुक्ला मय हमराह के ग्राम सुंगुलपुर मे मु0अ0सं0-/0119 2021 धारा498 -A/304B/ भादवि व 506 ¼ डीएक्ट 0पी0 के वांछित अभियुक्तगण के घर पर दबिश दी गयी जहां पर मुकदमें में वांछित अभियुक्ता घर में मौजूद मिली, जिसको थाना चौबेपुर पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर, अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

- मु0अ0सं0- 0119/2021 धारा- 498A/304B/506 भादवि व ¼ डी0पी0 एक्ट से संबंधित अभियुक्ता

गिरफ्तारी का दिनांक व समय – दिनांक 28. 02.2021 समय 13 . 20 बजे

गिरफ्तारी का स्थान - ग्राम सुंगुलपुर थाना चौबेपुर वाराणसी

गिरफ्तारी टीम का विवरण: -

व0उ0नि 0श्री शेष कुमार शुक्ला, हेविनीत तिवारी 0का0, का 0रोशन त्रिपाठी,  
मअमृता कुमारी थाना चौबेपुर वाराणसी 0का0

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।

\*प्रेस नोट\*

आज दिनांक 28.02.2021 को थाना रामनगर के उ0नि0 ईशचन्द्र यादव देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में थाना क्षेत्र में मौजूद थे कि जरिये मुखबिर सूचना मिली कि थाना रामनगर में पंजीकृत मु0अ0सं0 043/2021 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त पीएसी तिराहा पर खड़ा है कहीं जाने की फिराक में है, यदि जल्दी किया जाये तो पकड़ा जा सकता है। उक्त सूचना पर विश्वास कर थाना रामनगर पुलिस पीएसी तिराहे पर पहुँच, मुखबिर की निशानदेही पर एक व्यक्ति को पकड़ लिया। पकड़ गये व्यक्ति से नाम पता पूछने पर अपना नाम राकेश पाण्डेय पुत्र गनेश पाण्डेय निवासी म0नं0 4/802 पुराना रामनगर वाराणसी उम्र 30 वर्ष बताया। थाना रामनगर पुलिस द्वारा समय करीब 10.00 बजे अभियुक्त राकेश पाण्डेय उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया, अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

\*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण\*-

1. राकेश पाण्डेय पुत्र गनेश पाण्डेय निवासी म0नं0 4/802 पुराना रामनगर वाराणसी उम्र 30 वर्ष ।

पंजीकृत अभियोग:-

1. मु0अ0सं0 0043/21 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना रामनगर वाराणसी

\*गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण\* :-

उ0नि0 ईशचन्द्र यादव, उ0नि0 अरविन्द यादव, का0 आमोद कुमार रमन, का0 प्रेमचन्द्र मौर्या, थाना रामनगर, वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।



\*प्रेस नोट\*

पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के निर्देशन में जनपद में नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन हेतु चलाये जा रहे \*“मिशन शक्ति”\* अभियान के अन्तर्गत दिनांक 28.02.2021 को वाराणसी पुलिस द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों के स्कूल/कॉलेज व सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं/बालिकाओं के बीच जाकर पोस्टर/बैनर/पम्पलेट/आडियो/विडियो क्लिप के माध्यम से सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नम्बरों (112,1098,1090,181,1076,108, 102) की जानकारी देकर जागरूक किया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मिशन शक्ति पुलिस टीम जागरूकता अभियान चलाते हुए 26 स्थानों पर प्रचार-प्रसार कर कुल 732 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया। मिशन शक्ति से सम्बन्धित 120 पर्चे वितरित किये गये। एण्टीरोमियो स्क्वाड द्वारा कुल 26 स्थानों पर भ्रमण/चेकिंग करते हुए कुल 155 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया साथ ही 25 शोहदों से पूछताछ एवं सख्त हिदायत दी गई।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।